

Zec

Chapter 6

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

שְׁנֵי	מִבֵּין	יְצֵאוֹת	מִרְכָּבוֹת	אַרְבַּע	וְהִנֵּה	וְאָרְאָה	עֵינַי	וְאֶשָּׂא	וְאֶשָּׁב	1
दो	से-बीच	निकलते-हुए	रथ	चार	और-देखो	और-मैंने-देखा	आँखें-मेरी	और-मैंने-उठाई	और-मैं-लौटा	
H8147	H0996	H3318	H4818	H0702	H2009	H7200		H5375	H7725	
							נְהַשְׁתָּ:	הָרִי	וְהָרִים	הָרִים
							काँसे-के	पर्वत	और-पर्वत	पर्वतों-के
								H2022	H2022	H2022

तब मैं चारों ओर घुम गया। मैंने निगाह उठाई और मैंने चार रथों को चार कांसे के पर्वतों के बीच के जाते देखा।

שְׁחָרִים:	סוּסִים	הַשְּׂנִית	וּבְמִרְכָּבָה	אֲדָמִים	סוּסִים	הָרְאשֻׁנָה	בְּמִרְכָּבָה	2
काले	घोड़े	दूसरे	और-मैं-रथ	लाल	घोड़े	पहले	में-रथ	
H7838		H8145	H4818			H7223	H4818	

प्रथम रथ को लाल घोड़े खींच रहे थे। दूसरे रथ को काले घोड़े खींच रहे थे।

אֲמָצִים:	בְּרָדִים	סוּסִים	הָרְבִיעִית	וּבְמִרְכָּבָה	לְבָנִים	סוּסִים	הַשְּׁלִישִׁית	וּבְמִרְכָּבָה	3
बलवान	चित्तीदार	घोड़े	चौथे	और-मैं-रथ	सफेद	घोड़े	तीसरे	और-मैं-रथ	
H0554	H1261		H7243	H4818	H3836		H7992	H4818	

तीसरे रथ को श्वेत घोड़े खींच रहे थे और चौथे रथ को लाल धब्बे वाले घोड़े खींच रहे थे।

אֲדָנִי:	אֵלֶּה	מָה-	כִּי	הַדָּבָר	הַמְּלֶאֶךָ	אֶל-	וְאָמַר	וְאָעֵן	4
प्रभु-मेरे	हैं-ये	क्या-	मुझ-में	जो-बोलता-था	दूत	को-	और-मैंने-कहा	और-मैंने-उत्तर-दिया	
H0113	H0428	H4100		H1696	H4397	H0413	H0559		

तब मैंने बात करने वाले उस दूत से पुछा, “महोदय, इन चीजों का तात्पर्य क्या है?”

מִהַתְיָצֵב	יּוֹצְאוֹת	הַשְּׂמַיִם	רַחֲוֹת	אַרְבַּע	אֵלֶּה	אֵלַי	וְאָמַר	הַמְּלֶאֶךָ	וַיַּעַן	5	
से-खड़े-होने	निकलती-हुई	आकाश-की	आत्माएँ	चार	ये	मुझ-से	और-उसने-कहा	दूत-ने	और-उत्तर-दिया		
H3320	H3318	H8064	H7307	H0702	H0428	H0413	H0559	H4397			
								עַל-	אֲדָנִי	כָּל-	
								पर-	पृथ्वी-के	सब-	
									H0776	H3605	H0113

दूत ने कहा, “ये चारों दिशाओं की हवाओं के प्रतीक हैं। वे अभी सारे संसार के स्वामी के यहाँ से आये

אֶל-	יָצְאוּ	וְהִלְבְּנוּם	צְפוֹן	אֶרֶץ	אֶל-	יְצֵאִים	הַשְּׁחָרִים	הַסּוּסִים	בָּהּ	אֶשְׂרָר-	6
की-ओर-	निकले	और-सफेद	उत्तर-के	देश	की-ओर-	निकलते-हैं	काले	घोड़े	में-उस	जिस-	
H0413	H3318	H3836	H6828	H0776	H0413	H3318	H7838				
					הַתִּימָן:	אֶרֶץ	אֶל-	יָצְאוּ	וְהִבְרָדִים	אֶחָרֵיהֶם	
					दक्षिण-के	देश	की-ओर-	निकले	और-चित्तीदार	पीछे-उनके	
					H8486	H0776	H0413	H3318	H1261		

हैं। काले घोड़े उत्तर को जाएंगे। लाल घोड़े पूर्व को जाएंगे। श्वेत घोड़े पश्चिम को जाएंगे और लाल धब्बेदार घोड़े दक्षिण को जाएंगे।”

וּמְשָׁל	וַיֵּשֶׁב	הַיּוֹד	יִשָּׂא	וְהוֹאֵה	יְהוָה	הַיְכָל	אֶת	יִבְנֶה	וְהוֹאֵה	13
और-शासन-करेगा	और-बैठेगा	प्रताप	वह-उठाएगा	और-वह-	यहोवा-का	मंदिर	को-	वह-बनाएगा	और-वह	
H4910	H3427	H1935	H5375	H1931	H3068	H1964	H0853	H1129	H1931	
שְׁנֵיהֶם:	בֵּין	תְּהִיָּה	שְׁלֹמֹם	וְעֲצָת	כִּסְאוֹ	עַל-	כֹּהֵן	וְהָיָה	כִּסְאוֹ	עַל-
दोनों-के	बीच	होगी	शांति-की	और-योजना	सिंहासन-उसके	पर-	याजक	और-होगा	सिंहासन-उसके	पर-
H8147	H0996	H1961	H7965	H6098	H3678		H3548	H1961	H3678	

वह यहोवा का मंदिर बनाएगा, और वह सम्मान पाएगा। वह अपने राजसिंहासन पर बैठेगा, और शासक होगा। उसके सिंहासन के बगल में एक याजक खड़ा होगा। और ये दोनों व्यक्ति शान्तिपूर्वक एक साथ काम करेंगे।'

בֶּן-	וּלְחֹן	וּלְיָדָעָה	וּלְטוֹבִיָּה	לְחֹלֶם	תְּהִיָּה	וְהָעֵטָרִת	14
पुत्र-	और-के-लिए-खेन	और-के-लिए-यदईयाह	और-के-लिए-तोबीयाह	के-लिए-खेलेम	होंगे	और-मुकुट	
	H2581	H3048	H2900	H2494	H1961	H5850	
				יְהוָה:	בְּהֵיכַל	לְזִכְרוֹן	צְפִנְיָה
				यहोवा-के	में-मंदिर	के-लिए-स्मरण	सपनयाह-के
				H3068	H1964	H2146	H6846

वे मुकुट को मंदिर में रखेंगे जिससे लोगों को याद रखने में सहायता मिलेगी। वह मुकुट हेल्दै, तोबियाह, यदायाह और सपन्याह के पुत्र योशियाह को सम्मान प्रदान करेगा।"

צְבָאוֹת	יְהוָה	כִּי-	וַיִּדְעֹתֶם	יְהוָה	בְּהֵיכַל	וּבְנוֹ	יָבֵאוּ	וַיִּרְחֹקִים	15
सेनाओं-के	यहोवा	कि-	और-तुम-जानोगे	यहोवा-के	में-मंदिर	और-बनाएंगे	वे-आएंगे	और-दूर-से	
	H3068		H3045	H3068	H1964	H1129	H0935	H7350	
ס	אֶלֶּהֵיכֶם:	יְהוָה	בְּקוֹל	תִּשְׁמָעוּ	אִם-	וְהָיָה	אֵלֵיכֶם	שְׁלַחְנִי	
।	एलोहीम-तुम्हारे	यहोवा	में-आवाज़	तुम-सुनोगे	सुनकर	यदि-	और-होगा	तुम्हारे-पास	उसने-भेजा-मुझे
	H0430	H3068	H8085	H8085		H1961	H0413	H7971	

दूर के निवासी लोग आएंगे और मंदिर को बनाएंगे। लोगों, समझोगे कि यहोवा ने मुझे तुम लोगों के पास है। यह सब घटित होगा, यदि तुम वह करोगे, जिसे करने को यहोवा कहता है।